

पत्रांक: जी.एस.टी. / 2019-20 / 1920041 /

1106 / वाणिज्य कर  
कार्यालय- कमिश्नर, वाणिज्य कर,  
उत्तर प्रदेश।

(जी.एस.टी. अनुभाग)

लखनऊ: दिनांक: 22 जुलाई, 2019

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1  
एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0)  
समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0) / (कार्पोरेट)  
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

विषय:- सी.बी.ई.सी. द्वारा जारी परिपत्र संख्या 45/19/2018-जी.एस.टी. दिनांक 30.05.2018 के शुद्धि पत्र के सम्बन्ध में।

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ इन्डायरेक्ट टैक्सेस एण्ड कस्टम द्वारा रिफण्ड सम्बन्धी विषयों के स्पष्टीकरण हेतु परिपत्र संख्या 45/19/2018-जी.एस.टी. दिनांक 30.05.2018 को जारी किया गया था। जसके अनुपालन में इस कार्यालय द्वारा परिपत्र संख्या 315 दिनांक 18.06.2018 जारी किया गया था।

उपरोक्त परिपत्र के सम्बन्ध में सी.बी.ई.सी. द्वारा शुद्धि पत्र दिनांक 18.07.2019 जारी किया गया है। जिसकी छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत कराते हुए अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

यह पत्र कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश के अनुमोदनोपरान्त जारी किया जा रहा है।  
संलग्नक:- उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(अजीत कुमार शुक्ला)

एडीशनल कमिश्नर (विधि)

वाणिज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ।

CBEC/20/06/03/2019-GST  
Government of India  
Ministry of Finance  
Department of Revenue  
Central Board of Indirect Taxes and Customs  
GST Policy Wing  
\*\*\*

New Delhi, Dated the 18<sup>th</sup> July, 2019

To,

The Principal Chief Commissioners/ Chief Commissioners/ Principal Commissioners/ Commissioners of Central Tax (All)

The Principal Director Generals/ Director Generals (All)

Madam/Sir,

**Subject: Corrigendum to Circular No. 45/19/2018-GST dated 30<sup>th</sup> May, 2018 issued vide F. No. CBEC/20/16/4/2018-GST - reg.**

In para 4.2 of the Circular No. 45/19/2018-GST dated 30<sup>th</sup> May, 2018,

*for*

“4.2 In this regard, it is clarified that for the tax periods commencing from 01.07.2017 to 31.03.2018, such registered persons shall be allowed to file the refund application in **FORM GST RFD-01A** on the common portal subject to the condition that the amount of refund of integrated tax/cess claimed shall not be more than the aggregate amount of integrated tax/cess mentioned in the Table under columns 3.1(a), 3.1(b) and 3.1(c) of **FORM GSTR-3B** filed for the corresponding tax period.”

*read,*

“4.2 In this regard, it is clarified that for the tax periods commencing from 01.07.2017 to 30.06.2019, such registered persons shall be allowed to file the refund application in **FORM GST RFD-01A** on the common portal subject to the condition that the amount of refund of

**Corrigendum to Circular No. 45/19/2018-GST**

integrated tax/cess claimed shall not be more than the aggregate amount of integrated tax/cess mentioned in the Table under columns 3.1(a), 3.1(b) and 3.1(c) of **FORM GSTR-3B** filed for the corresponding tax period.”

2. It is requested that suitable trade notices may be issued to publicize the contents of this Circular.
3. Difficulty, if any, in implementation of this Circular may please be brought to the notice of the Board. Hindi version would follow.

(Upendar Gupta)  
Pr. Commissioner (GST)